

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 29]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 जुलाई 2012—आषाढ़ 29, शक 1934

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कुछ नहीं